



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88]
No. 88]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 1986/फाल्गुन 28, 1907
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 1986/PHALGUNA 28, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रीमण्डल सचिवालय

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1986

अधिमूचना

का०आ० 102(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक सौ ब्यासीवा संशोधन), नियम, 1986 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में,—

(1) प्रथम अनुसूची में,—

(i) शीर्ष "12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय" और उसके अधीन उपशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय :

(i) शिक्षा विभाग

(ii) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग

(iii) कला विभाग

(iv) संस्कृति विभाग

(v) महिला और बाल विकास विभाग।";

(2) द्वितीय अनुसूची में, शीर्ष "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" के अन्तर्गत उप-शीर्ष "ड महिला कल्याण विभाग" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

"ड. महिला और बाल विकास विभाग।"।

जैल सिंह
राष्ट्रपति

[सं० 74/2/1/86-मंत्रि०]

दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 19th March, 1986

NOTIFICATION

S.O. 102(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and eighty second Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961—

(1) In the First Schedule,—

(i) for the heading “12. Ministry of Human Resource Development (Manav Sansadhan Vikas Mantralaya)” and the sub-headings thereunder, the following shall be substituted, namely :—

“12. Ministry of Human Resource Development (Manav Sansadhan Vikas Mantralaya) :

(i) Department of Education (Shiksha Vibhag).

(ii) Department of Youth Affairs and Sports (Yuva Karyakaram aur Khel Vibhag).

(iii) Department of Arts (Kala Vibhag).

(iv) Department of Culture (Sanskriti Vibhag).

(v) Department of Women and Child Development (Mahila aur Bal Vikas Vibhag).”;

(2) In the Second Schedule, under the heading “MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSADHAN VIKAS MANTRALAYA)” for the sub-heading “E. DEPARTMENT OF WOMEN’S WELFARE (MAHILA KALYAN VIBHAG)”, the following shall be substituted, namely :—

“E. DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (MAHILA AUR BAL VIKAS VIBHAG)”.

ZAIL SINGH

President

[No. 74/2/1/86-Cab.]

DEEPAK DAS GUPTA, Jt. Secy.